

भारत में सूचना आयुक्तों का प्रदर्शन 2022-23

प्रलिस के लिये:

सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005, केंद्रीय सूचना आयोग (CIC), राज्य सूचना आयोग (SIC), सतर्क नागरिक संगठन, मुख्य चुनाव आयुक्त

मेन्स के लिये:

पारदर्शिता और जवाबदेही, सूचना का अधिकार, कार्यबल में महिलाओं से संबंधित मुद्दे

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सतर्क नागरिक संगठन (SNS) द्वारा "भारत में सूचना आयोगों (IC) के प्रदर्शन पर रपिर्ट कार्ड, 2022-23" शीर्षक वाली एक रपिर्ट में विश्लेषण के आधार पर भारत भर के 29 सूचना आयोगों से सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त जानकारी के विश्लेषण के आधार पर इन आयोगों के लिये प्रतिनिधित्व और अन्य परिचालन पहलुओं के बारे में चौंकाने वाले आँकड़े उजागर किये हैं।

- SNS भारत में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिये समर्पित एक गैर-सरकारी संगठन (NGO) है जो नागरिकों को लोकतंत्र में सक्रिय और सूचित भागीदार बनने के लिये सशक्त बनाने का कार्य करता है।

रपिर्ट की प्रमुख बढि क्या हैं?

- सूचना आयोगों में लैंगिक असमानता:
 - महिलाओं का प्रतिनिधित्व:
 - देश भर के सभी सूचना आयुक्तों में से केवल 9% महिलाएँ हैं, जो एक महत्वपूर्ण लैंगिक असमानता को उजागर करता है।
 - नेतृत्व भूमिकाएँ:
 - केवल 5% IC का नेतृत्व महिलाओं द्वारा किया गया है और वर्तमान में उनमें से किसी का भी नेतृत्व महिला आयुक्त द्वारा नहीं किया गया है।
 - महिला आयुक्तों के बनि राज्य:
 - 12 IC, जो लगभग 41% हैं, की स्थापना के बाद से कभी भी महिला आयुक्त नहीं रही हैं।
 - इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मजोरम, सकिक्मि, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।
- सूचना आयुक्तों की पृष्ठभूमि:
 - सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी:
 - सर्वेक्षण में शामिल लगभग 58% आईसी की पृष्ठभूमि सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों के रूप में है।
 - कानूनी पेशेवर:
 - लगभग 14% आयुक्त वकील या पूर्व न्यायाधीश हैं, जो सूचना आयोगों की विधि पृष्ठभूमि में योगदान करते हैं।
- सूचना आयोगों का कामकाज:
 - मामलों की नपिटान दरें:
 - कई IC बनि कोई आदेश पारित किये बड़ी संख्या में मामले वापस कर देते हैं, [केंद्रीय सूचना आयोग](#) और कुछ राज्य सूचना आयोग प्राप्त अपीलें या शिकायतों में से 41% वापस कर दिये हैं।
 - कम नसितांतरण दर (Low Disposal Rates):
 - बड़ी संख्या में लंबित मामलों के बावजूद, कुछ आयोगों में प्रतिआयुक्त नसितांतरण दर कम है, जो मामले के प्रबंधन में संभावित अक्षमताओं का संकेत देता है।
 - रकितियाँ एवं नयुक्तियाँ:
 - एक बड़ी समस्या पारदर्शी और समय पर नयुक्तियों का अभाव है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ आयोग कम क्षमता पर या बनि

प्रमुख के काम कर रहे हैं।

◦ **नषिक्रयि आयोग (Defunct Commissions):**

- नई नयुक्तियों के अभाव के कारण झारखंड, तेलंगाना और त्रपुरा के राज्य सूचना आयोग नषिक्रयि हैं, जसिसे उनकी प्रभावी ढंग से कार्य करने की क्षमता प्रभावति हो रही है।

◦ **पारदर्शता संबंधी मुद्दे:**

- सूचना आयोगों का कामकाज काफी हद तक अपारदर्शी पाया गया, 29 सूचना आयोगों में से केवल 8 ने कहा कि उनका सुनवाई सार्वजनिक उपस्थिति के लिये खुली है, जो पारदर्शता संबंधी चिंताओं को उजागर करती है।

केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोग क्या है?

- केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोग की स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम (2005) के प्रावधानों के तहत वर्ष 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। यह कोई संवैधानिक निकाय नहीं है।
- **केंद्रीय सूचना आयोग:**
 - **संवैधानिक स्थिति:**
 - राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा गठति।
 - इसमें 1 मुख्य सूचना आयुक्त (Chief Information Commissioner - CIC) और राष्ट्रपति द्वारा नयुक्त 10 सूचना आयुक्त (Information Commissioners- IC) शामिल हैं।
 - प्रथम अनुसूची के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा शपथ दलाई जाती है।
 - **CIC/IC के लिये पात्रता एवं नयुक्त प्रक्रिया:**
 - इनके सदस्यों को नयुक्त होने के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता के साथ सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठति होना चाहिये।
 - वे राजनीतिक पद या किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं रह सकते।
 - इनकी नयुक्ता समिति में प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), लोकसभा में वपिक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामति एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।
 - **CIC और IC की कार्यकाल तथा सेवा शर्तें:**
 - CIC और IC 5 साल के कार्यकाल के लिये या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहते हैं (पुनर्नयुक्ता के लिये पात्र नहीं)।
 - CIC का वेतन मुख्य चुनाव आयुक्त के बराबर।
 - IC का वेतन चुनाव आयुक्त के समान।
 - IC CIC के रूप में नयुक्त के लिये पात्र है, लेकिन IC के रूप में कार्यकाल सहति कुल पाँच वर्षों तक सीमति है।
- **राज्य सूचना आयोग:**
 - **गठन:**
 - राज्य सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से गठति।
 - इसमें 1 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त (State Chief Information Commissioner (SCIC) और राज्यपाल द्वारा नयुक्त 10 राज्य सूचना आयुक्त (State Information Commissioners -SIC) शामिल हैं।
 - **SCIC/SIC की पात्रता और नयुक्त प्रक्रिया:**
 - SCIC/SIC के नयुक्ता के लिये अर्हताएँ केंद्रीय आयुक्तों के समान ही होंगी।
 - नयुक्ता समिति की अध्यक्षता मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। समिति के अन्य सदस्यों में विधानसभा में वपिक्ष के नेता तथा मुख्यमंत्री द्वारा नामति एक कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।
 - SCIC का वेतन चुनाव आयुक्त के समान होता है। SIC का वेतन राज्य सरकार के मुख्य सचिव के समान होता है।
- **सूचना आयोग की शक्तियाँ और कार्य:**
 - सूचना अनुरोधों और अनुपालन (अनुपालन न करना) के संबंध में शकियाँ प्राप्त करने का कर्तव्य।
 - उचित आधार पर जाँच का आदेश देने की शक्ति।
 - संबद्ध व्यक्तियों को बुलाने, साक्ष्य की आवश्यकता आदि के संबंध में सविलि न्यायालय के समान शक्तियाँ।
 - अनुपालन की स्थिति में ढंड के साथ-साथ कयि गए नरिण्यों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
 - केंद्रीय सूचना आयोग किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा दयि गए नरिदेशों की स्वतंत्रता के साथ स्वायत्त रूप से शक्तियों का प्रयोग और संचालन कर सकता है।
- **मुख्यालय:**
 - केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय दिल्ली में स्थति है तथा इसे केंद्र सरकार की पूर्वानुमति से भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापति करने का अधिकार है।

आगे की राह

- आयुक्तों के लिये नषिपक्ष, पारदर्शी और समावेशी चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करना जसिमें महिलाओं तथा हाशिए पर जीवन यापन करने वाले समूहों को उचित प्रतिनिधित्व शामिल हो।
- RTI अधिनियम और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नरिधारति मानदंडों का अनुपालन करते हुए मामले के निपटान दरों तथा दक्षता में सुधार के लिये

पर्याप्त संसाधन एवं बुनियादी ढाँचा प्रदान करना ।

- समय पर और पारदर्शी नयुक्तियाँ, व्यापक रूप से वजिआपति रकित्तियों तथा रकित्तियों की पूर्ता में तीव्रता लाने के लिये नषिक्रयि आयोगों का पुनरुद्धार करना एवं साथ ही यह सुनशिचति करना कऱ्प्रत्येक IC का नेतृत्व एक मुख्य आयुक्त द्वारा कयि जाए ।
- वार्षकि रपिर्त्त प्रकाशन, बजट और व्यय प्रकटीकरण तथा सुनवाई में सार्वजनकि उपस्थति को सुगम बनाकर पारदर्शति एवं उत्तरदायतिव बढ़ाना ।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. “सूचना का अधकिार अधनियिम केवल नागरकिों के सशक्तीकरण के बारे में ही नहीं है, अपति यह आवश्यक रूप से जवाबदेही की संकल्पना को पुनः परभिषति करता है ।” वविचना कीजयि । (2018)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/performance-of-information-commissions-in-india-2022-23>

